

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्ण अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2010—श्रावण 25, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. बी-11-5-2010-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये संलग्न सूची के अनुसार नवीन पटवारी हल्काबंदी जिला मंदसौर की संशोधित सूची उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010-11 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार
पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

जिला मंदसौर

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मंदसौर	वृत्त मंदसौर	1	नौगांवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	रेवास देवडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	भरडावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	कोचवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		5	जमालपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	गल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	गुजरदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	रलायता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	धारियाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	सिदपन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	गुराडिया देदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	मुल्तानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	दाउखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	माल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	अचेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	बाटाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	भालोट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	सेजपुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		19	अमलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		20	आधारी गिरधारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	रिछा बच्चा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		22	साजाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		23	आघोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	खिलयीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		25	कस्बा मन्दसौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	लालघाटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	साबाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	जग्गाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	बोहराखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	सोहलपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		31	सेनखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	अरन्या निजामुद्दिन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	चांगली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	पानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		35	सेमली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		36	ढिकोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		37	उदपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		38	कोलवाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		39	लिलदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		40	पाल्या मारु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		41	पिपल्या फराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		42	जग्गाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
मंदसौर	ब्लॉक 2	43	माल्याखेरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की इच्छाकर सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मंदसौर	धुधडका 2	44	सूरी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	45	लोध	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	46	पलवई	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	47	गुजरबडिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	48	डिगावमाली	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	49	चिपलाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	50	रिण्डा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	51	लदूसा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	52	बाग्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	53	बाबरेचा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	54	लसुडावन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	55	धुधडका	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	56	गलियाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	57	धमनार	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	58	बड़वन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	59	भाटरवेसा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	60	अफजलपुर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	61	पालडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	62	ईशाकपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	63	नेतावली	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	64	रठाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	65	धिरमोलिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	66	बिलात्री	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	67	गुदियाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	68	झिरकन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	69	निपान्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	70	हतुनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	71	पटलावदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	72	लामगरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	73	कटक्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	74	भोलिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	75	रातीखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	76	जोगीखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	77	झावला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	78	सेमलिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	79	कुचडोद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	80	सिहोर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मंदसौर	धुधडका 2	81	लाउखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	1	नाहरगढ	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	2	खजूरी चन्द्रावत	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	3	झलारा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	4	बेटीखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	5	कचनारा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	6	खजूरी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	7	शक्करखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	8	सूठी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सीतामउ	कयामपुर	9	बडोद	—	—	सोयाबीन	—	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सीतामउ	कयामपुर	10	बडिया बरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	11	नाटाराम	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	12	कयामपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	13	खण्डेरिया काचर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	14	रणायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	15	रायगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	16	गाडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	17	भोतीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	18	पाचाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	19	बाजरखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	20	कोटडामाता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	21	कोटडाबहादुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	22	बोलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	23	बिशनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	24	खजूरी गौड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	25	अरन्या गौड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	26	खेताखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	27	बरखेडा जागिर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	28	काचरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	29	सेदरा करनाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	कयामपुर	30	धाकड पिपलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	31	ऐरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	32	चिकलाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	33	साठखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	34	मौरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	35	सेमलिया रानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	36	गलियारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	37	खेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	38	सीतामउ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	39	लदुना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	40	सागरवती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	41	सूरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	42	रावती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	43	सुवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	44	लावती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	45	मुण्डला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	46	पतलासी कुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	47	सगौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	48	नकडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	49	झागरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	50	सरगसेदरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	51	लतुडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	52	खजूरीनामा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	53	भरतपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	54	भगौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	55	मानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	56	मेनियाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सीतामउ	सीतामउ	57	साताखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	58	सेदरामाता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	59	राजनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	60	दलोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	61	ढण्डेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	62	दीपाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	63	धतुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	64	माउखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	65	गोपालपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	66	तितरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	67	महुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	68	बेलारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	69	कराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	70	ढिकनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	71	खेजडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	72	महूवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	73	लाटनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
सीतामउ	सीतामउ	74	रहीमगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	1	नंदावता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	2	दोराना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	3	जवासिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	4	करनाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	5	करजू	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	6	आकोडदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	7	राकोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	8	गुराडिया लालमुहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	9	सेमलिया हिरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	10	पाल्या लालमुहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	11	टोलखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	12	फतेहगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	13	बानीखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	14	दलोदा चौपाटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	15	दलोदा रेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	16	एलची	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	17	पटला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	18	मजोसरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	19	देहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	20	चांदाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	21	संगवाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	22	गरोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	23	बनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	24	कटलार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	25	भावगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	26	धन्खोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	27	बालोडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	28	नांदवेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दलोदा	आकोदडा	29	बेहपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हत्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हत्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
दलौदा	आकोदडा	30	खोडाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	31	खजुरिया सारंग	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	32	निम्बोद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	33	रिछालाल मुहा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	34	दलौदा सगरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	35	सरसौद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	36	गुराडिया स्याह	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	37	लसुडियाईला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	38	कचनारा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	39	आम्याउमाहेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
दलौदा	आकोदडा	40	नगरी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	1	मौलाखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	2	परासली घाटा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	3	हतुनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	4	कोरखेडी रिछा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	5	बडिया उंचा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	6	तोलखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	7	किलगरी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	8	भदूनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	9	चंदवासा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	10	आगर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	11	पडेरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	12	बतुनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	13	भुडिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	14	बरखेडा नीमच	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	15	पिछला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	16	असावती	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	17	बंजारी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	18	गरडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	19	बापचा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	20	खनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	21	कुरावन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	22	टकरावद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	23	बडिया पुना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	24	सेदरखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	25	कुण्डला खुर्द	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	26	नरसिंह बजुर्ग	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	27	ओकली शिथल	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	28	सगोरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	29	जमुनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	30	बरेखेडा उदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	31	शामगढ	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	32	धामनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	33	मकडावन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	34	दाखलागर्जर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	35	हनुमतिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	36	साबाखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
शामगढ	शामगढ	37	खजूरीपथ	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	38	बरखेडा राठौर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	39	आकली दिवान	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	40	विशानिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	41	सुरजना जुना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	42	परासली दिवान	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	43	सेमली शंकर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
शामगढ	शामगढ	44	सालरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	1	बरली	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	2	खडावदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	3	चंचावदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	4	बालोदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	5	मानखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	6	उदल्याखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	7	ढाबला मोहन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	8	मोलाखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	9	ढमलू	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	10	देथली बुजुर्ग	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	11	देथली खूद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	12	सेमरोल	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	13	पिपलखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	14	एरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	15	बरखेडा गंगासा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	16	गुराडिया नरसिंह	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	17	पिपलया राजा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	18	पनवाडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	19	लसुडिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	20	रलायता	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	21	देवरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	22	साठखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	23	खजूरीकण्डा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	24	रणायरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	25	आक्या कुवर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	26	बरखेडा लोया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	27	पिपलया जन्ती	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	28	बासगोन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	29	बंजारी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	30	आमनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	31	बडिया मुरार	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	32	ढाकनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	33	कुरलासी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	34	पिपलया मिटेसा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	35	कुडालिया चरण	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	36	गरोठ	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	37	बडिया अमर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	38	दसौरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	39	गुराडिया माता	—	—	सोयाबीन	—	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
गरोठ	गरोठ	40	पिपलया मोहम्मद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	41	पावटी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	42	फुलखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	43	खजूरीदोडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	44	चिकन्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	45	कोटडाबुजुर्ग	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	46	खारखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	47	बोलिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
गरोठ	गरोठ	48	चांदखेडी खुर्द	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	1	गौधी सागर	—	—	—	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	2	प्रेमपुरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	3	घावदबुजुर्ग	—	—	—	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	4	नावली	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	5	बडोदिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	6	कोटडी टैंक	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	7	सुजानपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	8	कैलाशपुर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	9	हमीरगढ़	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	10	भानपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	11	लोटेखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	12	सादलपुर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	13	कोहला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	14	अरन्याचारण	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	15	रायपुरिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	16	बाबूल्दा	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
भानपुरा	भानपुरा	17	कुकरेश्वर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	18	अन्त्रालिया	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
भानपुरा	भानपुरा	19	अरन्याभाऊ	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	20	सूरजना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	21	ढावला मनोहर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	22	दुधाखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	23	दुंगनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	24	मिटठनखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	25	परोनिया	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
भानपुरा	भानपुरा	26	कुन्तलखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	27	सातलखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	28	हरनावदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	29	खजूरना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	30	रतनपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	31	पोंगा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	32	बोरदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	33	गोविन्दखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	34	भेसीदा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	35	चौकी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	36	धुआखेडी	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
भानपुरा	भानपुरा	37	औसारा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
भानपुरा	भानपुरा	38	लेदीकला	—	—	सोयाबीन	—	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
भानपुरा	भानपुरा	39	औसरना	--	--	सोयाबीन	--	--	--
भानपुरा	भानपुरा	40	नीमथुर	--	--	सोयाबीन	--	--	--
भानपुरा	भानपुरा	41	गोवर्धनपुरा	--	--	सोयाबीन	--	मक्का	--
भानपुरा	भानपुरा	42	संधारा	--	--	सोयाबीन	--	मक्का	--
भानपुरा	भानपुरा	43	कालाकोट	--	--	सोयाबीन	--	--	--
भानपुरा	भानपुरा	44	सानडा	--	--	सोयाबीन	--	मक्का	--
भानपुरा	भानपुरा	45	ढाबला माधो	--	--	सोयाबीन	--	मक्का	--
भानपुरा	भानपुरा	46	कैथुली	--	--	सोयाबीन	--	मक्का	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	1	मनासा खूद	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	2	बरखेडा देव.	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	3	चंगेरी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	4	मोल्याखेडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	5	महेन्द्रा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	6	पिपलिया विशन्था	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	7	बोरखेडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	8	झाडा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	9	सोम्या	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	10	हरसोल	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	11	नारायणगढ़	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	12	बरुजना	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	13	लिम्बावास	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	14	रीछा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	15	चिताखेडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	16	मूर्देडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	17	सूठोद	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	18	मल्हारगढ़	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	19	काचरियानो	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	20	बरखेडा पंथ	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	21	निनोरा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	22	सोम्यी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	23	कनघट्टी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	24	सेमली	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	25	उमरिया	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	26	खखरई	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	27	बालागुडा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	28	बरखेडा जयसिंह	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	29	गोगरपुरा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	30	बही	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	31	सोकडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	32	पिपल्यापंथ	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	33	गुडभेली बडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	34	लूनाहेडा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	35	काचरिया चन्द्रावत	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	36	थडोद	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	37	बोतलगंज	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	38	बाबुखेडा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	39	कैलाश	--	--	सोयाबीन	--	--	--

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	40	देवरी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	41	मून्दडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	42	गेडियामीणा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	43	सिदंपन	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	44	कामलिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	45	लसुडिया राठौर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	46	तुरकिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	47	दोरवाडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	48	बादपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	49	बूढा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	50	पिरगुराडिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	51	किउखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	52	गोपालपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	53	अडमाल्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	54	आत्रीखूर्द	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	55	हिगोरिया छोटा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	56	खडपाल्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	57	बिल्लोद पिपल्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	58	टकरावद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	59	गरविद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	60	तलाबपिपल्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	61	ढाबला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	62	काचरिया कदमाला	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	63	रणाथरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	64	नापाखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	65	पिपल्याजोधा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	66	बिल्लोद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	67	रतनपिपल्या	—	—	सोयाबीन	—	—	—
मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	68	मगराना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	1	बसई	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	2	अजयपुर	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	3	ढाबला महेश	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	4	प्रतापपुरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	5	बर्डिया गुर्जर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	6	धलपट	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	7	कांटिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	8	गोवर्धनपुरा	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	9	गुराडिया विजय	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	10	धानडाखेडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	11	कानाहेडा	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	12	जगदी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	13	नाथुखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	14	ढोढर	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	15	ढाबला गवान	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	16	भैसोला	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	17	किशोरपुरा	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	18	धानखेडी	—	—	सोयाबीन	—	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलो की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
				धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सुवासरा	सुवासरा	19	देवरिया विजय	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	20	सुवासरा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	21	टोकडा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	22	गुराडिया प्रताप	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	23	जमुनिया	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	24	सेमली कांकड	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	25	ढाबला देवल	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	26	गैलाना	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	27	रूनीजा	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	28	आम्बा	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	29	घसोई	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	30	तरनाद	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	31	चापाखेडी	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	32	देवपुरा बामनी	—	—	सोयाबीन	—	—	—
सुवासरा	सुवासरा	33	बोरखेडी	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	34	सेमली	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—
सुवासरा	सुवासरा	35	अुंगारी	—	—	सोयाबीन	—	मक्का	—